



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 माघ 1930 (श10)
(सं0 पटना 30) पटना, बुधवार, 18 फरवरी 2009

मुख्य अभियंता कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, उपभाग-3 पटना
हार्डिंग रोड, बैरक नं0-2 पटना

आदेश

9 फरवरी 2009

सं० 318—जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष जिला अनुकंपा समिति शेखपुरा के ज्ञापांक 907, दिनांक 15.12.08 द्वारा श्री रतन कुमार पिता स्व० राम प्रसाद तत्कालिन कोषरक्षक, ग्रामीण कार्य प्रमंडल-2 शेखपुरा को वर्ग 4 (चार) के पद पर नियुक्ति की अनुशंसा प्राप्त है। अतः जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 124/सी0 दिनांक 04.06.02, पत्रांक 1337, दिनांक 21.03.03 एवं पत्रांक 1117, दिनांक 07.05.05 के आलोक में श्री रतन कुमार को वर्ग 4, 'कोषरक्षक' के पद पर वेतनमान 2610-3540 रुपये एवं समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते सहित नियुक्ति की जाती है। इन्हें आदेश दिया जाता है कि ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल-2 शेखपुरा के अधीन वर्ग 4 के रिक्त पद के बिरुद्ध पत्र (आदेश) निर्गत होने के एक माह तक हर हालत में अपना योगदान दे देंगे।

- इनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई एवं संबंधित वरियता सूची के लिए इनकी मान्यता नहीं है।
- स्व० राम प्रसाद कोषरक्षक के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण-भोषण का दायित्व श्री रतन कुमार पर होगी। उत्तरदायित्व के निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गम्भीर कदाचार माना जायेगा। जिसके बिरुद्ध नियमानुसार समुचित कार्रवाई की जायेगी। इसके अलावा उपलब्धियों का एक अंश मृत सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार को दे सकती है।
- अगर श्री रतन कुमार की नियुक्ति आरक्षित कोटे के रोस्टर बिन्दु पर हुई हो तो उक्त आरक्षित को अग्रणीत कर दिया जायेगा।
- नियुक्त पद पर योगदान करते समय असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र हर हालत में समर्पित करना होगा।
- नियुक्त पद पर योगदान करते समय शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, वास्तविक जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र एवं आश्रितों का भरण पोषण से संबंधित प्रमाण पत्र मूल में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। जिसकी जाँच कर संबंधित सूचना इस कार्यालय को भी देंगे।
- योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

8. इन्हें शादी ब्याह के अवसर पर किसी प्रकार का दहेज लेने व देने के संबंध में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।
9. उप सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 1964 दिनांक 31.08.05 के आलोक में दिनांक 01.09.05 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
विश्वनाथ चौधरी,
मुख्य अभियंता।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 30-571+10-डी0टी0पी0।